

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सा. का. नि. 240(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

“सं. आ. 190

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2002

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1 इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 2002 है।

2 साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उम्मी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3 (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संघित निधि पर निम्नलिखित राशियां भारत होंगी जो राज्यों को राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में,—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में प्रत्येक के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (14) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट हैं, जो उन स्तंभों में उल्लिखित मैक्टरो और सेवाओं के प्रशासन में संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने और “विशेष समस्याओं” के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् :—

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए

राज्य	जिला प्रशासन	पुलिस प्रशासन	कारागार प्रशासन	अग्नि- शमन सेवाएं	न्यायिक प्रशासन	राजकोषीय प्रशासन
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	639.30	120.66	341.86	754.12	1438.02
अरुणाचल प्रदेश	0.00	211.14	0.00	150.82	39.52	39.94
असम	0.00	723.95	90.49	150.82	177.68	119.83
बिहार	0.00	474.20	0.00	223.22	1597.54	363.38
छत्तीसगढ़	0.00	197.86	42.22	147.61	265.15	94.16
गोवा	0.00	0.00	0.00	20.11	41.92	79.89
गुजरात	0.00	0.00	60.33	0.00	1454.56	1529.06
हरियाणा	0.00	573.14	60.33	90.49	316.73	539.67
हिमाचल प्रदेश	0.00	136.04	20.10	60.32	0.00	29.88
जम्मू-कश्मीर	0.00	180.98	20.10	120.66	100.75	39.94
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	777.35	78.29
कर्नाटक	0.00	603.30	60.33	241.32	543.36	1278.24
केरल	0.00	683.15	0.00	90.49	327.89	989.39
मध्य प्रदेश	0.00	513.51	118.66	415.47	496.92	796.01
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	1087.54	2698.35
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	39.94
मेघालय	0.00	120.64	20.10	20.10	20.10	29.88
मिजोरम	0.00	80.44	0.00	20.10	20.10	39.94
नागालैंड	0.00	241.32	20.10	20.10	18.30	29.88
उड़ीसा	0.00	512.82	90.49	301.65	625.62	359.78
पंजाब	0.00	522.84	80.44	60.32	250.06	639.12
राजस्थान	0.00	1266.93	180.99	442.42	484.06	719.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	39.94
तमिलनाडु	1327.26	814.45	160.88	160.88	425.93	1798.90
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	39.94
उत्तर प्रदेश	2998.69	1339.04	254.38	483.55	2118.19	1365.36
उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	393.35	112.64
पश्चिमी बंगाल	0.00	375.81	180.98	120.66	887.65	1079.34

स्वास्थ्य सेवाएं	प्रारम्भिक शिक्षा	स्कूली विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सार्वजनिक पुस्तकालय	विरामित संरक्षण	पारंपारिक जल स्रोतों की वृद्धि	विशेष समस्याएं
8	9	10	11	12	13	14
361.98	1025.60	0.00	391.38	100.54	859.50	2386.84
271.48	30.16	0.00	287.80	0.00	0.00	150.91
542.97	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	301.65
814.45	1704.62	0.00	631.57	0.00	0.00	75.41
361.98	443.12	0.00	0.00	0.00	186.31	0.00
60.33	0.00	17.29	0.00	20.11	19.01	301.73
0.00	0.00	0.00	0.00	150.82	0.00	0.00
452.47	180.99	246.45	144.80	150.82	0.00	1508.30
0.00	20.10	0.00	0.00	40.22	199.10	904.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	535.26
422.31	382.09	233.47	0.00	201.10	613.35	1106.03
271.48	30.16	181.59	0.00	60.33	194.56	1508.28
663.61	830.74	389.12	191.05	148.40	2036.00	1005.58
0.00	392.14	453.98	0.00	301.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.65
120.66	30.16	0.00	0.00	20.10	80.04	603.50
120.65	20.10	69.18	0.00	20.10	76.42	965.40
120.66	20.10	69.18	0.00	20.10	87.18	603.29
723.96	663.63	0.00	0.00	301.65	736.32	1357.48
361.98	60.32	73.50	132.73	40.22	20.21	603.30
482.64	844.60	276.71	148.81	201.10	2156.61	1608.80
90.49	30.16	0.00	0.00	0.00	38.01	0.00
422.30	261.42	0.00	543.63	201.10	0.00	985.39
90.49	30.16	0.00	54.28	30.16	55.50	0.00
1628.91	2238.84	907.96	1159.20	254.29	823.20	1018.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361.98	945.34	147.01	0.00	100.55	380.08	1206.52

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियाँ, ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय मशकत समितियों द्वारा अनुमोदित सैकटरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि का, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत उस वास्तविक व्यय के विरुद्ध जो कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, 1 अप्रैल, 2002 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर समायोजन किया जा सकेगा :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसी प्रोत्साहन निधि से जमा किया जाएगा जिससे सभी राज्यों को राजवित्तिय निष्पादन पर आधारित अनुदान दिए जाने हैं;

- (ख) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से (8) तक में प्रत्येक के मामले विनिर्दिष्ट हैं, जो 1 अप्रैल, 2001 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उन स्तम्भों में उल्लिखित स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों पर और "विशेष समस्याओं" पर पूजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं, अर्थात् —

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए

राज्य	पुलिस	कोषागारों का कंप्यूटरीकरण	जेल	अभिलेख कक्ष	शिक्षा	अग्निशमन सेवाएँ	विशेष समस्याएं
1	2	3	4	5	6	7	8
(रु. लाख में)							
बिहार	1943.88	—	338.90	307.00	1231.31	262.52	—
गोवा	—	—	—	0.57	—	20.00	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	400.01
हिमाचल प्रदेश	3.48	—	2.30	2.20	64.07	9.97	449.18
जम्मू-कश्मीर	250.61	—	—	—	—	—	—
झारखण्ड	723.27	—	243.63	10.12	890.53	87.51	—
केरल	—	—	53.00	—	—	—	20.00
मेघालय	3.01	—	0.04	1.79	—	19.92	—
मिजोरम	30.46	3.00	2.40	0.55	18.81	10.00	—
पंजाब	—	—	84.60	—	—	—	—
नागालैंड	179.30	8.97	31.80	—	23.34	20.00	239.20
उड़ीसा	55.01	85.50	29.06	57.00	1622.97	39.94	823.70
राजस्थान	75.18	34.00	10.37	—	280.48	9.85	—
तमिलनाडु	36.96	—	74.66	36.48	—	39.50	—
उत्तर प्रदेश	—	—	47.12	—	926.16	—	—
उत्तरांचल	—	—	—	—	44.26	—	—
पश्चिमी बंगाल	—	27.50	—	—	—	—	441.71

परन्तु यह कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक सदत राशि को किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा।

(2) उपपैरा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन संदेय कोई राशि या राशिया अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के परन्तुको में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के आर नारायणन,
राष्ट्रपति ।”

[फा. सं 19(4)/2002-वि. I]

के.एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2002

G.S.R. 240(E).—The following Order made by the President is published for general information —

"C.O. 190

The Constitution (Distribution of revenues)

No. 4 ORDER, 2002

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order namely —

- 1 This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 4 Order, 2002
- 2 The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act
- 3 (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2002, as grants-in-aid of the revenues to—
 - (a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (14) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and "special problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely —

Table

State	For upgradation of standards relating to					
	District Adminis- tration	Police Adminis- tration	Prison Adminis- tration	Fire Services	Judicial Adminis- tration	Fiscal Adminis- tration
1	2	3	4	5	6	7
(Rupees in Lakhs)						
Andhra Pradesh	0.00	639.30	120.66	341.86	754.12	1438.02
Arunachal Pradesh	0.00	211.14	0.00	150.82	39.52	39.94
Assam	0.00	723.95	90.49	150.82	177.68	119.83
Bihar	0.00	474.20	0.00	223.22	1597.54	363.38
Chhattisgarh	0.00	197.86	42.22	147.61	265.15	94.16
Goa	0.00	0.00	0.00	20.11	41.92	79.89
Gujarat	0.00	0.00	60.33	0.00	1454.56	1529.06
Haryana	0.00	573.14	60.33	90.49	316.73	539.67
Himachal Pradesh	0.00	136.04	20.10	60.32	0.00	29.88

1	2	3	4	5	6	7
Jammu and Kashmir	0.00	180.98	20.10	120.66	100.75	39.94
Jharkhand	0.00	0.00	0.00	0.00	777.35	78.29
Karnataka	0.00	603.30	60.33	241.32	543.36	1278.24
Kerala	0.00	683.15	0.00	90.49	327.89	989.39
Madhya Pradesh	0.00	513.51	118.66	415.47	496.92	796.01
Maharashtra	0.00	0.00	0.00	0.00	1087.54	2698.35
Manipur	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	39.94
Meghalaya	0.00	120.64	20.10	20.10	20.10	29.88
Mizoram	0.00	80.44	0.00	20.10	20.10	39.94
Nagaland	0.00	241.32	20.10	20.10	18.30	29.88
Orissa	0.00	512.82	90.49	301.65	625.62	359.78
Punjab	0.00	522.84	80.44	60.32	250.06	639.12
Rajasthan	0.00	1266.93	180.99	442.42	484.06	719.00
Sikkim	0.00	0.00	0.00	30.16	0.00	39.94
Tamil Nadu	1327.26	814.45	160.88	160.88	425.93	1798.90
Trnpura	0.00	0.00	0.00	0.00	24.73	39.94
Uttar Pradesh	2998.69	1339.04	254.38	483.55	2118.19	1365.36
Uttaranchal	0.00	0.00	0.00	0.00	393.35	112.64
West Bengal	0.00	375.81	180.98	120.66	887.65	1079.34

	Health Services	Elementary Education	Computer Training for School Children	Public Libraries	Heritage Protection	Augmen- tation of Traditional Water Sources	Special Problems
	8	9	10	11	12	13	14
	361.98	1025.60	0.00	391.38	100.54	859.50	2386.84
	271.48	30.16	0.00	287.80	0.00	0.00	150.91
	542.97	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	301.65
	814.45	1704.62	0.00	631.57	0.00	0.00	75.41
	361.98	443.12	0.00	0.00	0.00	186.31	0.00
	60.33	0.00	17.29	0.00	20.11	19.01	301.73
	0.00	0.00	0.00	0.00	150.82	0.00	0.00
	452.47	180.99	246.45	144.80	150.82	0.00	1508.30
	0.00	20.10	0.00	0.00	40.22	199.10	904.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	98.64	0.00	535.26
	422.31	382.09	233.47	0.00	201.10	613.35	1106.03

8	9	10	11	12	13	14
271.48	30.16	181.59	0.00	60.33	194.56	1508.28
663.61	830.74	389.12	191.05	148.40	2036.00	1005.58
	392.14	453.98		301.65		
						301.65
120.66	30.16			20.10	80.04	603.50
120.65	20.10	69.18		20.10	76.42	965.40
120.66	20.10	69.18		20.10	87.18	603.29
723.96	663.63	0.00		301.65	736.32	1357.48
361.98	60.32	73.50	132.73	40.22	20.21	603.30
482.64	844.60	276.71	148.81	201.10	2156.61	1688.80
90.49	30.16				38.01	
422.30	261.42		543.63	201.10		985.39
90.49	30.16		54.28	30.16	55.50	
1628.91	2238.84	907.96	1159.20	254.29	823.20	1018.38
361.98	945.34	147.01		100.55	380.08	1206.52

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees :

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 2002 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as reflected in the accounts of that year

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remain unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States;

- (b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (8) of the said Table, towards expenditure of capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgradation of standards and "special problems" mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April, 2001, namely —

Table

For upgradation of standards relating to							
State	Police	Computeri- sation of Treasuries	Jails	Record Rooms	Education	Fire Services	Special Problems
1	2	3	4	5	6	7	8
(Rupees in lakhs)							
Bihar	1943.88	—	338.90	307.00	1231.31	262.52	—
Goa	—	—	—	0.57	—	20.00	—
Haryana	—	—	—	—	—	—	400.01

1	2	3	4	5	6	7	8
Himachal Pradesh	3 48	—	2 30	2 20	64 07	9 97	449 18
Jammu and Kashmir	250 61	—	—	—	—	—	—
Jharkhand	723 27	—	243 63	10 12	890 53	87 51	—
Kerala	—	—	53 00	—	—	—	20 00
Meghalaya	3 01	—	0 04	1 79	—	19 92	—
Mizoram	30 46	3 00	2 40	0 55	18 81	10 00	—
Punjab	—	—	84 60	—	—	—	—
Nagaland	179 30	8 97	31 80	—	23 34	20 00	239 20
Orissa	55 01	85 50	29 06	57 00	1622 97	39 94	823 70
Rajasthan	75 18	34 00	10 47	—	280 48	9 85	—
Tamil Nadu	36 96	—	74 66	36 48	—	39 50	—
Uttar Pradesh	—	—	47 12	—	926 16	—	—
Uttaranchal	—	—	—	—	44 26	—	—
West Bengal	—	27 50	—	—	—	—	441 71

Provided that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275

K R NARAYANAN

President "

[F No 19(4)/2002-L T]

K N CHAI URVEDI, Addl Secy